


Aussie Broadband nbn™

HFC खुद से इंस्टॉल करने की गाइड



और अधिक जानकारी या तकनीकी सहायता
के लिए 1300 880 905 पर फोन करें

aussiebroadband.com.au

अपने nbn™ को जानें

अपने nbn™ कनेक्शन बॉक्स पर लाइटों को समझना

आपके nbn™ कनेक्शन बॉक्स में सामने के पैनल पर चार संकेतक लाइटें हैं और दो पीछे की ओर डाटा पोर्ट (UNI-D1) पर हैं। सामान्य ऑपरेशन के दौरान, पॉवर, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और सामने के पैनल की ऑनलाइन लाइटें हमेशा गहरी हरे होनी चाहिए।

● ऑन ● फ्लैशिंग ● ऑफ

पॉवर

दर्शाता है कि बॉक्स में पॉवर आ रही है।

डाउनस्ट्रीम


दर्शाता है कि डाउनस्ट्रीम कनेक्टिड है।

अपस्ट्रीम

दर्शाता है कि अपस्ट्रीम कनेक्टिड है।

ऑनलाइन

दर्शाता है कि nbn™ नेटवर्क कनेक्शन चालू है।



शुरूआत का क्रम

पॉवर	पॉवर	पॉवर	पॉवर	पॉवर	पॉवर
●	●	●	●	●	●
डाउनस्ट्रीम	डाउनस्ट्रीम	डाउनस्ट्रीम	डाउनस्ट्रीम	डाउनस्ट्रीम	डाउनस्ट्रीम
●	●	●	●	●	●
अपस्ट्रीम	अपस्ट्रीम	अपस्ट्रीम	अपस्ट्रीम	अपस्ट्रीम	अपस्ट्रीम
●	●	●	●	●	●
ऑनलाइन	ऑनलाइन	ऑनलाइन	ऑनलाइन	ऑनलाइन	ऑनलाइन
●	●	●	●	●	●
nbn™ कनेक्शन बॉक्स पर कोई पॉवर नहीं	पॉवर-ऑन सेल्फ टेस्ट	डाउनस्ट्रीम की सर्च	डाउनस्ट्रीम मिल गया अपस्ट्रीम की सर्च	डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम मिल गए - nbn™ से सेटअप जानकारी निकाली जा रही है	सेवा के लिए तैयार

अपने मॉडम/राउटर को कंफ़ीगर करना

HFC के लिए अपने Aussie Broadband मॉडम/राउटर को कंफ़ीगर करना

मॉडम/राउटर पर लॉग इन करें

- वेब ब्राउज़र खोलें।
- एड्रेस बॉर में **192.168.20.1** एंटर करें।
- आपको या तो सेट अप विजार्ड से जाने के लिए या फिर मेन मेन्यू पर स्किप करने के लिए प्राम्पट किया जाएगा। "No, skip to main menu." पर क्लिक करें और अपना यूज़रनेम और पासवर्ड एंटर करें। यदि आपके मॉडम/राउटर को फैक्टरी रीसेट किया गया है, तो यूज़रनेम और पासवर्ड दोनों 'admin' होने चाहिए।
- अपनी स्क्रीन के बायीं ओर 'Internet' पर क्लिक करें।
- 'Create New' पर क्लिक करें।
- 'Description' पर 'Aussie Broadband' लिखें। 'Internet Service' के अधीन 'Ethernet WAN' चुनें। फिर 'Connection Type' के अधीन 'Dynamic IP' चुनें।
- 'Apply' बटन पर क्लिक करें।
- 'Apply/Save' बटन पर क्लिक करें।
- बधाई हो, अब आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे (वायर रहित विवरण के लिए अपनी Aussie Broadband nbn™ कनेक्शन गाइड का पृष्ठ 3 देखें)।

ध्यान दें - इसकी ज़रूरत केवल तब है यदि आपने अपने मॉडम/राउटर को फैक्टरी रीसेट किया है; अन्यथा Aussie Broadband ने विशिष्ट तौर पर आपकी सेवा के लिए हार्डवेयर को पहले से कंफ़ीगर किया है।



फर्मवेयर अपडेट्स के आधार पर निर्देश बदलाव अधीन हैं। नवीनतम चरण-दर-चरण निर्देशों (तस्वीरों के साथ) के लिए
visit aussiebroadband.com.au/fttnmodem देखें

और अधिक जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए 1300 880 905 पर फोन करें
aussiebroadband.com.au